

REPORT OF INCLUSIVE CHILDREN FESTIVAL 2024

On the occasion of International Day for Persons with Disabilities 2024, Asha Ka Jharna in partnership with The Hans Foundation celebrated Inclusive Children Festival on 5th December 2024 at S K Govt Senior Secondary School Sports Ground Sikar (Rajasthan). We invited 240 children from 12 regular (5 government & 7 private) schools and Two shelter homes for children in need of care and protection (orphans). They along with 210 of children with disabilities from our three special schools & three inclusive education project locations, one another NGO and 30 trainees from our teacher training institute participated in day long events.

Day started at 9.45 AM with dignitaries along with special children flagging off awareness rally Badhte Kadam (Let's Move On) comprising of 550 participants who travelled through main market of town. Play cards depicting equal rights, equal opportunity, education for all, accessibility, inclusion, participation in electoral process, community integration & empowerment through advocacy were flashed thereby sensitizing the society. More than 5000 community members along the rally path cheered up the children. Rally assembled at S K School Sports Ground at 10.40 AM where after settling down & relaxing, school team in charges got their children registered at the counter.

At 11 AM, tri-coloured balloons were let off to sky by the special and non-disabled children declaring ICF 24 open. In the second phase, 21 sporting & ability games were organized including 50-meter race, sack race, spoon race, jalebi jump, musical chair race, three-legged race, mehndi applying, gunshot, basketball throw, ring throw, bowling alley, balloon pricking while blind folded in which children participated enthusiastically. This year few new One Minute Fun Games were introduced including Identification of cartoon characters, Peeling off & eating oranges, Identification of objects while blind folded, To put bindis on self-face. In all sporting & fun events both disabled and non-disabled children were there attempting inclusion. Special children proved their talent by winning 30 prizes whereas non disabled students bagged 36 prizes.

After a sumptuous lunch, in the third phase of cultural program segment, highlight of the day was the Inclusive Play presented jointly by children from a premier English medium school along with children with Intellectual/hearing disabilities from AKJ which stole the show & captivated the audience. Children also enjoyed many amusements activities & snack stalls including bouncy swing, trampoline swing, balloon bursting, golgappas, candy floss, popcorn counter etc.

In the prize distribution ceremony, invited esteemed guests & officials from education & social justice departments, district legal service authority, SAKSHAM, Vaish Samaj, Bharat Vikas Parishad encouraged the children by handing over prizes and pledging to support equal rights of persons with disabilities. These prominent social organizations were sensitized towards our

cause thus promoting inclusion in the community. Trainee educators from AKJ Institute of training & inclusive rehabilitation Nawalgarh & Subodh BEd College Sikar volunteered in the event and nursing students of Anupama Medical Training Institute provided medical services with First Aid Box. All the children were provided with participation gift, certificate and snacks. Day ended with sweet memories and fostering of new friendship with children vowing to take along their special buddy to the path of development. Feedback we received from non-disabled children validated our intended objectives of inclusion, sensitization of young citizens & showcasing talent of children with disabilities.

Event was widely covered in print and electronic media with due credit to **The Hans Foundation.**







INCLUSIVE CHILDREN FESTIVAL

समावेशित बाल उत्सव

3 दिसम्बर 2024



बढ़ते कदम



आयोजक: आशा का इरना

सौजन्य : द हंस फाउण्डेशन, नई दिल्ली

पुरस्कार पाकर खिले दिव्यांग बच्चों के चेहरे



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सीकर आशा का झरना व द हंस फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से संभाग स्तरीय समावेशित बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उसके स्कूल खेल मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की

शुरुआत जाट बाजार से दिव्यांगता जागरूकता रैली के साथ हुई। जो कल्याण सर्किल होते हुए उसके स्कूल मैदान पहुंची। जहां बच्चों के लिए 21 खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ बाल मेला आयोजित हुआ। जिसमें 66 में से 30 पुरस्कार दिव्यांग बच्चों ने हासिल कर प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस दौरान विभिन्न

स्टॉलों का भी बच्चों ने जमकर लुफ्त लिया। मेले में समसा एडीपीसी राकेश लाटा, सुदीप गोयल, भारत विकास परिषद जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, राजकीय आइटीआई कॉलेज उप निदेशक प्रशिक्षण सुनीत कुमार काजला, मोहित शर्मा, रतन लाल शर्मा, जीएल शर्मा, तरुणकुमार दुबे आदि मौजूद रहे।



आशा का झरना द्वारा बाल उत्सव का आयोजन

जेएनएचटी संस्थाएं
संस्था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग बाल दिवस के अवसर पर बीहड़न दिव्यांग बाल बच्चों को शिक्षा एवं पुरस्कारों में सहयोग देकर आशा का झरना द्वारा एक कार्यक्रम नई दिल्ली के सीकरनाथ से सुप्रसिद्धता को सम्मान के 210 दिव्यांग बच्चों व 16 आस्थाओं एवं नौ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगों के 280 सम्मान बच्चों के बीच संस्था स्तरीय समावेशित बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उसके स्कूल मैदान में किया गया।

दिव्यांगता जागरूकता रैली के साथ उत्सव को जाट बाजार से दिव्यांगता जागरूकता रैली के साथ शुरू किया गया। जो कल्याण सर्किल होते हुए उसके स्कूल मैदान पहुंची। जहां बच्चों के लिए 21 खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ बाल मेला आयोजित हुआ। जिसमें 66 में से 30 पुरस्कार दिव्यांग बच्चों ने हासिल कर प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस दौरान विभिन्न



स्टॉलों का भी बच्चों ने जमकर लुफ्त लिया। मेले में समसा एडीपीसी राकेश लाटा, सुदीप गोयल, भारत विकास परिषद जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, राजकीय आइटीआई कॉलेज उप निदेशक प्रशिक्षण सुनीत कुमार काजला, मोहित शर्मा, रतन लाल शर्मा, जीएल शर्मा, तरुणकुमार दुबे आदि मौजूद रहे।

दिव्यांग बाल बच्चों को शिक्षा एवं पुरस्कारों में सहयोग देकर आशा का झरना द्वारा एक कार्यक्रम नई दिल्ली के सीकरनाथ से सुप्रसिद्धता को सम्मान के 210 दिव्यांग बच्चों व 16 आस्थाओं एवं नौ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगों के 280 सम्मान बच्चों के बीच संस्था स्तरीय समावेशित बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उसके स्कूल मैदान में किया गया।

दिव्यांग बाल बच्चों को शिक्षा एवं पुरस्कारों में सहयोग देकर आशा का झरना द्वारा एक कार्यक्रम नई दिल्ली के सीकरनाथ से सुप्रसिद्धता को सम्मान के 210 दिव्यांग बच्चों व 16 आस्थाओं एवं नौ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगों के 280 सम्मान बच्चों के बीच संस्था स्तरीय समावेशित बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उसके स्कूल मैदान में किया गया।

दिव्यांग बाल बच्चों को शिक्षा एवं पुरस्कारों में सहयोग देकर आशा का झरना द्वारा एक कार्यक्रम नई दिल्ली के सीकरनाथ से सुप्रसिद्धता को सम्मान के 210 दिव्यांग बच्चों व 16 आस्थाओं एवं नौ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगों के 280 सम्मान बच्चों के बीच संस्था स्तरीय समावेशित बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उसके स्कूल मैदान में किया गया।

दिव्यांग बाल बच्चों को शिक्षा एवं पुरस्कारों में सहयोग देकर आशा का झरना द्वारा एक कार्यक्रम नई दिल्ली के सीकरनाथ से सुप्रसिद्धता को सम्मान के 210 दिव्यांग बच्चों व 16 आस्थाओं एवं नौ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगों के 280 सम्मान बच्चों के बीच संस्था स्तरीय समावेशित बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उसके स्कूल मैदान में किया गया।